

भीषण गर्मी में AC को सुरक्षित चलाना

AC सुरक्षा टिप्स | अपने परिवार की रक्षा करें। अपनी मशीन की रक्षा करें।



भीषण गर्मी में AC क्यों फेल होते हैं

कम्प्रेसर में अत्यधिक दबाव

गंदी आउटडोर कॉइल → दबाव बढ़ता है → विस्फोट

रेफ्रिजेंट लीक + चिंगारी

रेफ्रिजेंट ज्वलनशील हो सकते हैं; खराब वायरिंग के पास लीक = आग

बिजली की खराबी / शॉर्ट सर्किट

वोल्टेज गिरना → मोटर अधिक करंट खींचती है → आग

AC लंबे समय तक भीषण गर्मी में चलने के लिए नहीं बने (जैसे 45°C)

लगातार चलाना → ज्यादा गर्म होना → आग

शरीर से तुलना: कम्प्रेसर AC का दिल है। बंद कॉइल = बंद धमनी।
47°C में लगातार चलाना = धूप में निर्जलित व्यक्ति से मैराथन दौड़ना।



करें — आपके AC का नुस्खा

गर्मी के मौसम से पहले AC की सर्विस करवाएं
आउटडोर कॉइल (गिल) की अच्छी सफाई करवाएं

BEE 3-स्टार या उससे ऊपर रेटेड AC खरीदें
बेहतर गुणवत्ता

सुनिश्चित करें आउटडोर यूनिट के आसपास हवा का आना-जाना
1-2 फीट जगह चारों तरफ

तापमान 24-26°C पर रखें (BEE अनुशंसा)
सुरक्षित संचालन और पैसों की बचत

सीलिंग फैन साथ में चलाएं
बेहतर आराम, ज्यादा तापमान पर

AC को आराम दें जब बहुत गर्मी हो
हर कुछ घंटों में 15-20 मिनट बंद करें

शरीर से तुलना: लू से बचाव, पानी पिएं, आराम करें, छाया में रहें, ज्यादा मेहनत न करें।
AC के लिए भी: सफाई, आराम, 18°C न लगाएं, और हवा आने दें।



चेतावनी के संकेत — नज़रअंदाज़ न करें

चलता है पर ठंडा नहीं करता — लीक या बंद कंडेनसर

» हीट स्ट्रोक से पहले पसीना बंद हो जाता है लेकिन शरीर का तापमान बढ़ता रहता है

क्लिकिंग / भिनभिनाहट / खड़खड़ाहट — कैपेसिटर फेल

» अनियमित दिल की धड़कन जैसा

जलने की गंध — वायरिंग ज्यादा गर्म

» छाती में दर्द जैसा — तुरंत बंद करें

ब्रेकर बार-बार गिरता है — ओवरलोड (सुरक्षा काम कर रही है!)

» बेहोशी जैसा — जबरदस्ती चालू न करें

शरीर से तुलना: AC संकेत से पहले लक्षण दिखाता है — ठीक वैसे जैसे हीट स्ट्रोक से पहले शरीर।
इंसानों में चक्कर और मतली = AC में अजीब आवाज़, गंध और कम ठंडक।



न करें — इन गलतियों से बचें

X अयोग्य सर्विस टेक्नीशियन से काम न करवाएं — आपकी सुरक्षा के लिए

X बार-बार गिरते ब्रेकर को रिसेट न करें — यह सुरक्षा उपकरण है

X सालाना 'गैस टॉप-अप' को नज़रअंदाज़ न करें — इसका मतलब है लीक है

X थर्मोस्टेट 18°C पर न लगाएं — जल्दी ठंडा नहीं होता और AC खराब होता है

X आउटडोर यूनिट को बंद जगह में न रखें — इसे हवा चाहिए

X AC को 24/7 न चलाएं लू के दौरान बिना ब्रेक के

शरीर से तुलना: गिरते ब्रेकर को अनदेखा करना = छाती में दर्द को अनदेखा कर दौड़ने जाना।
AC सर्विस छोड़ना = 50 की उम्र में सालाना हेल्थ चेकअप छोड़ना।

याद रखें: हमारे पास लू से बचाव की योजनाएं हैं। वही सोच अपने AC पर भी लागू करें। ज्यादा न चलाएं। रखरखाव करें। जब AC कुछ बताए — सुनें।